



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 499]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 3, 1982/कार्तिक 12, 1904

No. 499] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 3, 1982/KARTIKA 12, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

खिस्त संज्ञासय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिमूचनाएं

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 1982

* का० आ० 774 (अ).—केन्द्रीय सरकार, मिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3) की धारा 7 के साथ पठित उसकी धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रवर्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का सक्षिप्त नाम मिक्का निर्माण ("नवम एशियाई खेल दिल्ली, 1982" के लिए ताबा और रूपा के बने दो रूप के स्मारक मिक्को का मानक वजन और उपचार) नियम, 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नवम एशियाई खेल दिल्ली, 1982 के लिए दो रूप के सिक्कों का मानक वजन और अनुज्ञात उपचार.

सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3) की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन दो रूप के सिक्को का मानक वजन और ऐसे सिक्को

के निर्माण में अनुज्ञात उपचार वैसा होगा जैसा नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट है:—

सिक्के का प्रकृत रूप	मानक वजन	अनुज्ञात उपचार	
		सारणी	
		संरचना में	मानक वजन में
दो रूप	8 ग्राम	ताबा और रूपा दोनों के लिए 1/100वां घन और 74% से 76% तक	1/40 वां घन और 8 200 ग्राम से 7 800 ग्राम तक घट बढ़ सकता है।

[का० सं० 1/91/81-स्वायत्त]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATIONS

S.O. 774 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 21 read with section 7 of the Coinage Act, 1906 (3 of 1906), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Coinage (Standard Weight and Remedy of Commemorative coins of Two Rupees made up of Copper and Nickel coined for "IX ASIAN GAMES DELHI 1982") Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Standard weight and remedy allowed on Two Rupees coin for IX Asian Games Delhi 1982.**— The standard weight of coins of Two Rupees coined under the provisions of section 6 of the Coinage Act, 1906 (3 of 1906), and the remedy allowed in the making of such coins shall be as specified in the Table below:—

TABLE

Denomination of the Coin	Standard weight	Remedy allowed	
		In composition	In standard weight
Two Rupees	8 grammes	1/100th plus and minus for both copper and nickel, that is to say copper per could vary from 74% to 76% and nickel from 24% to 26%.	1/40th plus and minus, that is to say, the weight could vary from 8.200 grammes to 7.800 grammes

[No. F. 1/9(1)/81—COIN]

का० शा० 775 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3) की धारा 7 के साथ पठित धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिक्का निर्माण (75 प्रतिशत तांबा और 25 प्रतिशत रूपा वाले एक रुपए के सिक्के का मानक वजन और उपचार) नियम, 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मानक वजन और अनुज्ञात उपचार :—सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3) की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन निम्न एक

रुपए के सिक्के का मानक वजन और ऐसे सिक्कों के निर्माण में अनुज्ञात उपचार वैसे होंगे जैसा नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट है :—

सारणी

सिक्के का अंकित मूल्य	मानक वजन	अनुज्ञात उपचार	
		संरचना में	वजन में
एक रुपया	6 ग्राम	तांबा और रूपा दोनों के लिए 1/100वां धन और ऋण अर्थात् तांबा 74% से 76% तक और रूपा 24% से 26% तक घट बढ़ सकता है।	1/40वां घन और ऋण अर्थात् वजन 8.150 ग्राम से 7.850 ग्राम तक घट बढ़ सकता है।

[सं० एक० 1/9(III)/81-स्वायत्त]
सी० जी० पाथरोज, सचिव

S.O. 775 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 21 read with section 7 of the Coinage Act, 1906 (3 of 1906), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Coinage (Standard Weight and Remedy of the coins of One Rupee containing copper 75 per cent and nickel 25 per cent) Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Standard weight and remedy allowed.**— The standard weight of the Coins of One Rupee coined under the provisions of section 6 of the Coinage Act, 1906 (3 of 1906), and the remedy allowed in the making of such coins shall be as specified in the Table below:—

TABLE

Denomination of the Coin	Standard weight	Remedy allowed	
		In composition	In weight
One Rupee	6 grammes	1/100th plus and minus both for Copper and Nickel, say, the weight that is to say, Copper could vary from 74% to 76%, and Nickel from 24% to 26%.	1/40th plus and minus, that is to say, the weight could vary from 6.150 grammes to 5.850 grammes

[No. F. 1/9 (III)/81-COIN]
C.G. PATHROSE, Under Secy.